

Rom

Chapter 7

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1	Ἦ	ἀγνοεῖτε,	ἀδελφοί,	γινώσκουσιν	γὰρ	νόμον	λαλῶ,	ὅτι	ὁ	νόμος
	या	नहीं-जानते	भाइयो	जाननेवालों-को	क्योंकि	व्यवस्था	बोलता-हूँ	कि	थे	व्यवस्था
	G2228	G0050	G0080	G1097	G1063	G3551	G2980	G3754	G3588	G3551
	κυριεύει	τοῦ	ἀνθρώπου	ἐφ’	ὅσον	χρόνον	ζῆ?			
	प्रभुता-करती-है	थे	मनुष्य-पर	के-लिये	जितने	समय	जीता-है			
	G2961	G3588	G0444	G1909	G3745	G5550	G2198			

हे भाईयों, क्या तुम नहीं जानते (मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो व्यवस्था को जानते हैं) कि व्यवस्था का शासन किसी व्यक्ति पर तभी तक है जब तक वह जीता है?

2	ἢ	γὰρ	ἕπανδρος	γυνή,	τῷ	ζῶντι	ἀνδρὶ	δέδεται	νόμῳ;	ἐὰν	δὲ
	थे	क्योंकि	विवाहित	स्त्री	थे	जीवित	पति-से	बंधी-है	व्यवस्था-से	यदि	परन्तु
	G3588	G1063	G5220	G1135	G3588	G2198	G0435	G1210	G3551	G1437	G1161
	ἀποθάνῃ	ὁ	ἀνὴρ,	κατήργηται	ἀπὸ	τοῦ	νόμου	τοῦ	ἀνδρός.		
	मर-जाए	थे	पति	छूट-गई-है	से	थे	व्यवस्था	थे	पति-की		
	G0599	G3588	G0435	G2673	G0575	G3588	G3551	G3588	G0435		

उदाहरण के लिए एक विवाहिता स्त्री अपने पति के साथ विधान के अनुसार तभी तक बँधी है जब तक वह जीवित है किन्तु यदि उसका पति मर जाता है, तो वह विवाह सम्बन्धी नियमों से छूट जाती है।

3	ἄρα	οὖν,	ζῶντος	τοῦ	ἀνδρός,	μοιχαλὶς	χρηματίσει,	ἐὰν	γένηται	ἀνδρὶ		
	अतः	तो	जीवित-होते-हुए	थे	पति	व्यभिचारिणी	कहलाएगी	यदि	हो-जाए	पति-की		
	G0686	G3767	G2198	G3588	G0435	G3428	G5537	G1437	G1096	G0435		
	ἐτέρῳ;	ἐὰν	δὲ	ἀποθάνῃ	ὁ	ἀνὴρ,	ἐλευθέρα	ἐστὶν	ἀπὸ	τοῦ	νόμου;	τοῦ
	दूसरे	यदि	परन्तु	मर-जाए	थे	पति	स्वतन्त्र	है	से	थे	व्यवस्था	के-लिये
	G2087	G1437	G1161	G0599	G3588	G0435	G1658	G1510	G0575	G3588	G3551	G3588
	μὴ	εἶναι	αὐτὴν	μοιχαλίδα,	γενομένην	ἀνδρὶ	ἐτέρῳ.					
	न	होने-को	वह	व्यभिचारिणी	हो-जाकर	पति-की	दूसरे					
	G3361	G1510	G0846	G3428	G1096	G0435	G2087					

पति के जीते जी यदि किसी दूसरे पुरुष से सम्बन्ध जोड़े तो उसे व्यभिचारिणी कहा जाता है किन्तु यदि उसका पुरुष मर जाता है तो विवाह सम्बन्धी नियम उस पर नहीं लगता और इसलिए यदि वह दूसरे पुरुष की हो जाती है तो भी वह व्यभिचारिणी नहीं है।

4	ὥστε,	ἀδελφοί	μου,	καὶ	ὑμεῖς	ἐθανατώθητε	τῷ	νόμῳ,	διὰ	τοῦ	
	इसलिये	भाइयो	मेरे	भी	तुम	मारे-गए	थे	व्यवस्था-के-लिये	द्वारा	थे	
	G5620	G0080	G1473	G2532	G4771	G2289	G3588	G3551	G1223	G3588	
	σώματος	τοῦ	Χριστοῦ,	εἰς	τὸ	γενέσθαι	ὑμᾶς	ἐτέρῳ,	τῷ	ἐκ	νεκρῶν
	शरीर	के	मसीह	की-ओर	थे	होने-को	तुम	दूसरे-के	उस-के-जो	से	मृतकों
	G4983	G3588	G5547	G1519	G3588	G1096	G4771	G2087	G3588	G1537	G3498
	ἐγεροθέντι,	ἵνα	καρποφορήσωμεν	τῷ	Θεῷ.						
	जिलाया-गया	ताकि	फल-दें	को	परमेश्वर						
	G1453	G2443	G2592	G3588	G2316						

हे मेरे भाईयों, ऐसे ही मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए तुम भी मर चुके हो। इसलिए अब तुम भी किसी दूसरे से नाता जोड़ सकते हो। उससे जिसे मरे हुआओं में से पुनर्जीवित किया गया है। ताकि हम परमेश्वर के लिए कर्मों की उत्तम खेती कर सकें।

- 5 ὅτε γὰρ ἤμεν ἐν τῇ σαρκί, τὰ παθήματα τῶν ἁμαρτιῶν, τὰ διὰ
जब क्योंकि थे में थे शरीर, वे वासनाएं की पापों वो द्वारा
[G3753](#) [G1063](#) [G1510](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4561](#) [G3588](#) [G3804](#) [G3588](#) [G0266](#) [G3588](#) [G1223](#)
- τοῦ νόμου, ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, εἰς τὸ καρποφορῆσαι τῷ
थे व्यवस्था काम-करती-थीं में हमारे अंगों हमारे की-ओर थे फल-देने-को को
[G3588](#) [G3551](#) [G1754](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3196](#) [G1473](#) [G1519](#) [G3588](#) [G2592](#) [G3588](#)

θανάτῳ;

मृत्यु

[G2288](#)

क्योंकि जब हम मानव स्वभाव के अनुसार जी रहे थे, हमारी पापपूर्ण वासनाएँ जो व्यवस्था के द्वारा आयी थीं, हमारे अंगों पर हावी थीं। ताकि हम कर्मों की ऐसी खेती करें जिसका अंत मौत में होता है।

- 6 νυνὶ δὲ κατηγορήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου, ἀποθανόντες ἐν ᾧ κατειχόμεθα,
अब परन्तु छुटाये-गए से थे व्यवस्था मर-कर में जिस बंधे-जाते-थे
[G3570](#) [G1161](#) [G2673](#) [G0575](#) [G3588](#) [G3551](#) [G0599](#) [G1722](#) [G3739](#) [G2722](#)

ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύματος, καὶ οὐ παλαιότητι
ताकि सेवा-करें हम में नवीनता आत्मा-की और नहीं पुरानेपन
[G5620](#) [G1398](#) [G1473](#) [G1722](#) [G2538](#) [G4151](#) [G2532](#) [G3756](#) [G3821](#)

γράμματος.

लेख-के

[G1121](#)

किन्तु अब हमें व्यवस्था से छुटकारा दे दिया गया है क्योंकि जिस व्यवस्था के अधीन हमें बंदी बनाया हुआ था, हम उसके लिये मर चुके हैं। और अब पुरानी लिखित व्यवस्था से नहीं, बल्कि आत्मा की नयी रीति से प्रेरित होकर हम अपने स्वामी परमेश्वर की सेवा करते हैं।

- 7 Τί οὖν ἐροῦμεν? ὁ νόμος ἁμαρτία? μὴ γένοιτο! ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν
क्या तो कहेंगे थे व्यवस्था पाप न हो परन्तु थे पाप
[G5101](#) [G3767](#) [G2046](#) [G3588](#) [G3551](#) [G0266](#) [G3361](#) [G1096](#) [G0235](#) [G3588](#) [G0266](#)

οὐκ ἔγνω, εἰ μὴ διὰ νόμου; τὴν τε γὰρ ἐπιθυμίαν, οὐκ ἴδεν,
नहीं जाना यदि न द्वारा व्यवस्था और भी क्योंकि इच्छा नहीं जानता
[G3756](#) [G1097](#) [G1487](#) [G3361](#) [G1223](#) [G3551](#) [G3588](#) [G5037](#) [G1063](#) [G1939](#) [G3756](#) [G1492](#)

εἰ μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν, Οὐκ ἐπιθυμήσεις.
यदि न थे व्यवस्था कहती न लालचायेगा
[G1487](#) [G3361](#) [G3588](#) [G3551](#) [G3004](#) [G3756](#) [G1937](#)

तो फिर हम क्या कहें? क्या हम कहें कि व्यवस्था पाप है? निश्चय ही नहीं। जो भी हो, यदि व्यवस्था नहीं होती तो मैं पहचान ही नहीं पाता कि पाप क्या है? यदि व्यवस्था नहीं बताती, “जो अनुचित है उसकी चाहत मत करो” तो निश्चय ही मैं पहचान ही नहीं पाता कि अनुचित इच्छा क्या है।

- 8 ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία, διὰ τῆς ἐντολῆς, κατειργάσατο ἐν
अवसर परन्तु लेकर थे पाप-ने द्वारा थे आज्ञा उत्पन्न-की में
[G0874](#) [G1161](#) [G2983](#) [G3588](#) [G0266](#) [G1223](#) [G3588](#) [G1785](#) [G2716](#) [G1722](#)

ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν; χωρὶς γὰρ νόμου, ἁμαρτία νεκρά.
मुझ हर इच्छा बिना क्योंकि व्यवस्था पाप मृत
[G1473](#) [G3956](#) [G1939](#) [G5565](#) [G1063](#) [G3551](#) [G0266](#) [G3498](#)

किन्तु पाप ने मौका मिलते ही व्यवस्था का लाभ उठाते हुए मुझमें हर तरह की ऐसी इच्छाएँ भर दीं जो अनुचित के लिए थीं। व्यवस्था के अभाव में पाप तो मर गया।

9 ἐγὼ δὲ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ; ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς, ἢ
 मैं परन्तु जीता-था बिना व्यवस्था कभी आने-पर परन्तु थे आज्ञा थे
[G1473](#) [G1161](#) [G2198](#) [G5565](#) [G3551](#) [G4218](#) [G2064](#) [G1161](#) [G3588](#) [G1785](#) [G3588](#)

ἀμαρτία ἀνέζησεν, ἐγὼ δὲ ἀπέθανον.
 पाप जी-उठा मैं परन्तु मर-गया
[G0266](#) [G0326](#) [G1473](#) [G1161](#) [G0599](#)

एक समय मैं बिना व्यवस्था के ही जीवित था, किन्तु जब व्यवस्था का आदेश आया तो पाप जीवन में उभर आया।

10 καὶ εὐρέθη μοι ἢ ἐντολή, ἢ εἰς ζώην, αὕτη εἰς θάνατον.
 और पायी-गई मुझे थे आज्ञा जो की-ओर जीवन यह की-ओर मृत्यु
[G2532](#) [G2147](#) [G1473](#) [G3588](#) [G1785](#) [G3588](#) [G1519](#) [G2222](#) [G3778](#) [G1519](#) [G2288](#)

और मैं मर गया। वही व्यवस्था का आदेश जो जीवन देने के लिए था, मेरे लिए मृत्यु ले आया।

11 ἢ γὰρ ἀμαρτία, ἀφορμὴν λαβοῦσα, διὰ τῆς ἐντολῆς, ἐξηπάτησέν με,
 थे क्योंकि पाप-ने अवसर लेकर द्वारा थे आज्ञा धोखा-दिया मुझे
[G3588](#) [G1063](#) [G0266](#) [G0874](#) [G2983](#) [G1223](#) [G3588](#) [G1785](#) [G1818](#) [G1473](#)

καὶ δι' αὐτῆς ἀπέκτεινεν.
 और उसके-द्वारा उसके मार-डाला
[G2532](#) [G1223](#) [G0846](#) [G0615](#)

क्योंकि पाप को अवसर मिल गया और उसने उसी व्यवस्था के आदेश के द्वारा मुझे छला और उसी के द्वारा मुझे मार डाला।

12 ὥστε ὁ μὲν νόμος ἅγιος, καὶ ἢ ἐντολή ἁγία, καὶ δικαία, καὶ
 तो थे तो व्यवस्था पवित्र और थे आज्ञा पवित्र और धर्मी और
[G5620](#) [G3588](#) [G3303](#) [G3551](#) [G0040](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1785](#) [G0040](#) [G2532](#) [G1342](#) [G2532](#)

ἀγαθή.
 भली
[G0018](#)

इस तरह व्यवस्था पवित्र है और वह विधान पवित्र, धर्मी और उत्तम है।

13 Τὸ οὖν ἀγαθόν, ἐμοὶ ἐγένετο θάνατος? μὴ γένοιτο! ἀλλὰ ἢ ἀμαρτία,
 थे तो भली मेरे-लिये हुई मृत्यु न हो परन्तु थे पाप-ने
[G3588](#) [G3767](#) [G0018](#) [G1473](#) [G1096](#) [G2288](#) [G3361](#) [G1096](#) [G0235](#) [G3588](#) [G0266](#)

ἵνα φανῆ ἀμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι, κατεργαζομένη θάνατον; ἵνα
 ताकि प्रकट-हो पाप द्वारा थे भले मेरे-लिये उत्पन्न-करनेवाली मृत्यु ताकि
[G2443](#) [G5316](#) [G0266](#) [G1223](#) [G3588](#) [G0018](#) [G1473](#) [G2716](#) [G2288](#) [G2443](#)

γένηται καθ' ὑπερβολὴν ἀμαρτωλός, ἢ ἀμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς.
 हो-जाए मैं अत्यन्त पापी थे पाप द्वारा थे आज्ञा
[G1096](#) [G2596](#) [G5236](#) [G0268](#) [G3588](#) [G0266](#) [G1223](#) [G3588](#) [G1785](#)

तो फिर क्या इसका यह अर्थ है कि जो उत्तम है, वही मेरी मृत्यु का कारण बना? निश्चय ही नहीं। बल्कि पाप उस उत्तम के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का इसलिए कारण बना कि पाप को पहचाना जा सके। और व्यवस्था के विधान के द्वारा उसकी भयानक पापपूर्णता दिखाई जा सके।

14 οἶδαμεν γὰρ ὅτι ὁ νόμος πνευματικός ἐστιν; ἐγὼ δὲ σάρκινός εἰμι,
 जानते-हैं क्योंकि कि थे व्यवस्था आत्मिक है मैं परन्तु शारीरिक हूँ
[G1492](#) [G1063](#) [G3754](#) [G3588](#) [G3551](#) [G4152](#) [G1510](#) [G1473](#) [G1161](#) [G4560](#) [G1510](#)

παπετραμένος ὑπὸ τὴν ἀμαρτίαν.
 बेचा-हुआ नीचे थे पाप
[G4097](#) [G5259](#) [G3588](#) [G0266](#)

क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है और मैं हाड़-माँस का भौतिक मनुष्य हूँ जो पाप की दासता के लिए बिका हुआ है।

15 ὁ γὰρ κατεργάζομαι, οὐ γινώσκω; οὐ γὰρ ὁ θέλω, τοῦτο πράσσω;
 जो क्योंकि करता-हूँ नहीं समझता-हूँ नहीं क्योंकि जो चाहता-हूँ यह करता-हूँ
[G3739](#) [G1063](#) [G2716](#) [G3756](#) [G1097](#) [G3756](#) [G1063](#) [G3739](#) [G2309](#) [G3778](#) [G4238](#)

ἀλλ' ὁ μισῶ, τοῦτο ποιῶ.
 परन्तु जिसे घृणा-करता-हूँ यह करता-हूँ
[G0235](#) [G3739](#) [G3404](#) [G3778](#) [G4160](#)

मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ, नहीं करता, बल्कि मुझे वह करना पड़ता है, जिससे मैं घृणा करता हूँ।

16 εἰ δὲ ὁ οὐ θέλω, τοῦτο ποιῶ, σύμφημι τῷ νόμῳ, ὅτι καλός.
 यदि परन्तु जो नहीं चाहता-हूँ यह करता-हूँ सहमत-हूँ थे व्यवस्था-से कि उत्तम
[G1487](#) [G1161](#) [G3739](#) [G3756](#) [G2309](#) [G3778](#) [G4160](#) [G4852](#) [G3588](#) [G3551](#) [G3754](#) [G2570](#)

और यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता तो मैं स्वीकार करता हूँ कि व्यवस्था उत्तम है।

17 νυνὶ δὲ, οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό; ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ
 अब परन्तु अब-नहीं मैं करता-हूँ उसे परन्तु थे रहनेवाला में मुझ-में
[G3570](#) [G1161](#) [G3765](#) [G1473](#) [G2716](#) [G0846](#) [G0235](#) [G3588](#) [G3611](#) [G1722](#) [G1473](#)

ἀμαρτία.
 पाप
[G0266](#)

किन्तु वास्तव में वह मैं नहीं हूँ जो यह सब कुछ कर रहा है, बल्कि यह मेरे भीतर बसा पाप है।

18 οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τοῦτ' ἔστιν ἐν τῇ σαρκί
 जानता-हूँ क्योंकि कि नहीं निवास-करती-है में मुझ यह-है है में थे शरीर
[G1492](#) [G1063](#) [G3754](#) [G3756](#) [G3611](#) [G1722](#) [G1473](#) [G3778](#) [G1510](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4561](#)

μου -- ἀγαθόν -- τὸ γὰρ θέλειν παράκειται μοι, τὸ δὲ κατεργάζεσθαι
 मेरे भलाई थे क्योंकि चाहना उपलब्ध-है मुझे थे परन्तु करना
[G1473](#) [G0018](#) [G3588](#) [G1063](#) [G2309](#) [G3873](#) [G1473](#) [G3588](#) [G1161](#) [G2716](#)

τὸ καλὸν, οὐ.
 थे उत्तम नहीं
[G3588](#) [G2570](#) [G3756](#)

हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे भौतिक मानव शरीर में किसी अच्छी वस्तु का वास नहीं है। नेकी करने के इच्छा तो मुझ में है पर नेक काम मुझ से नहीं होते।

19 οὐ γὰρ ὁ θέλω, ποιῶ ἀγαθόν; ἀλλὰ ὁ οὐ θέλω κακόν, τοῦτο
 नहीं क्योंकि जो चाहता-हूँ करता-हूँ भलाई परन्तु जो नहीं चाहता-हूँ बुराई यह
[G3756](#) [G1063](#) [G3739](#) [G2309](#) [G4160](#) [G0018](#) [G0235](#) [G3739](#) [G3756](#) [G2309](#) [G2556](#) [G3778](#)

πράσσω.
 करता-हूँ
[G4238](#)

क्योंकि जो अच्छा काम मैं करना चाहता हूँ, मैं नहीं करता बल्कि जो मैं नहीं करना चाहता, वे ही बुरे काम मैं करता हूँ।

20 εἰ δὲ ὁ οὐ θέλω, ἐγὼ τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι
 यदि परन्तु जो नहीं चाहता-हूँ मैं यह करता-हूँ अब-नहीं मैं करता-हूँ
[G1487](#) [G1161](#) [G3739](#) [G3756](#) [G2309](#) [G1473](#) [G3778](#) [G4160](#) [G3765](#) [G1473](#) [G2716](#)

αὐτό, ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἀμαρτία.
 उसे परन्तु थे रहनेवाला में मुझ-में पाप
[G0846](#) [G0235](#) [G3588](#) [G3611](#) [G1722](#) [G1473](#) [G0266](#)

और यदि मैं वही काम करता हूँ जिन्हें करना नहीं चाहता तो वास्तव में उनका कर्ता जो उन्हें कर रहा है, मैं नहीं हूँ, बल्कि वह पाप है जो मुझ में बसा है।

21 εὐρίσκω ἄρα τὸν νόμον, τῷ θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλὸν, ὅτι
पाता-हूँ अतः थे व्यवस्था थे चाहनेवाले-को मुझ करने-को थे उत्तम कि
[G2147](#) [G0686](#) [G3588](#) [G3551](#) [G3588](#) [G2309](#) [G1473](#) [G4160](#) [G3588](#) [G2570](#) [G3754](#)

ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται.
मेरे-पास थे बुराई उपलब्ध-है
[G1473](#) [G3588](#) [G2556](#) [G3873](#)

इसलिए मैं अपने में यह नियम पाता हूँ कि मैं जब अच्छा करना चाहता हूँ, तो अपने में बुराई को ही पाता हूँ।

22 συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ, κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον;
आनन्दित-हूँ क्योंकि थे व्यवस्था-से की परमेश्वर के-अनुसार थे भीतरी मनुष्य
[G4913](#) [G1063](#) [G3588](#) [G3551](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2596](#) [G3588](#) [G2080](#) [G0444](#)

अपनी अन्तरात्मा में मैं परमेश्वर की व्यवस्था को सहर्ष मानता हूँ।

23 βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσίν μου, ἀντιστρατευόμενον τῷ
देखता-हूँ परन्तु दूसरी व्यवस्था में मेरे अंगों मेरे लड़नेवाली थे
[G0991](#) [G1161](#) [G2087](#) [G3551](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3196](#) [G1473](#) [G0497](#) [G3588](#)

νόμῳ τοῦ νοός μου, καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ τῆς
व्यवस्था-से की मन मेरे और बन्दी-बनानेवाली मुझे में थे व्यवस्था की
[G3551](#) [G3588](#) [G3563](#) [G1473](#) [G2532](#) [G0163](#) [G1473](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3551](#) [G3588](#)

ἀμαρτίας, τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσίν μου.
पाप जो है में मेरे अंगों मेरे
[G0266](#) [G3588](#) [G1510](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3196](#) [G1473](#)

पर अपने शरीर में मैं एक दूसरे ही नियम को काम करते देखता हूँ यह मेरे चिन्तन पर शासन करने वाली व्यवस्था से युद्ध करता है और मुझे पाप की व्यवस्था का बंदी बना लेता है। यह व्यवस्था मेरे शरीर में क्रियाशील है।

24 Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος! τίς με ῥύσεται, ἐκ τοῦ σώματος τοῦ
दुखी मैं मनुष्य कौन मुझे छुड़ाएगा से इस शरीर थे
[G5005](#) [G1473](#) [G0444](#) [G5101](#) [G1473](#) [G4506](#) [G1537](#) [G3588](#) [G4983](#) [G3588](#)

θανάτου τούτου?
मृत्यु-के इस
[G2288](#) [G3778](#)

मैं एक अभागा इंसान हूँ। मुझे इस शरीर से, जो मौत का निवाला है, छुटकारा कौन दिलायेगा?

25 χάρις [δὲ] τῷ Θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν! ἄρα οὖν,
अनुग्रह परन्तु को परमेश्वर द्वारा यीशु मसीह थे प्रभु हमारे अतः तो
[G5485](#) [G1161](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1223](#) [G2424](#) [G5547](#) [G3588](#) [G2962](#) [G1473](#) [G0686](#) [G3767](#)

αὐτὸς ἐγὼ, τῷ μὲν νοῷ δουλεύω νόμῳ Θεοῦ; τῇ δὲ σαρκί, νόμῳ
स्वयं मैं थे तो मन-से सेवा-करता-हूँ व्यवस्था-की परमेश्वर थे परन्तु शरीर-से व्यवस्था-की
[G0846](#) [G1473](#) [G3588](#) [G3303](#) [G3563](#) [G1398](#) [G3551](#) [G2316](#) [G3588](#) [G1161](#) [G4561](#) [G3551](#)

ἀμαρτίας.
पाप
[G0266](#)

अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सो अपने हाड़ माँस के शरीर से मैं पाप की व्यवस्था का गुलाम होते हुए भी अपनी बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था का सेवक हूँ।